

**\*प्रेस नोट दिनांक 30.05.2022\***

**\*मिशन शक्ति-4 अभियान के अन्तर्गत शाहजहाँपुर पुलिस द्वारा महिला बीट अधिकारियों को कार्यशाला आयोजित कर दिया गया प्रशिक्षण, सिखाये सेल्फ डिफेंस के गुर।\***

माननीय मुख्यमंत्री उत्तरप्रदेश द्वारा दिनांक 18.03.21 को आयोजित वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम छात्राओं को महिला अपराधों के प्रति जागरूकता एवं महिला सशक्तिकरण हेतु मिशनशक्ति अभियान-4 के अंतर्गत श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन बरेली एवं श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक बरेली परिक्षेत्र बरेली के निर्देशानुसार व श्री एस. आनन्द पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर द्वारा महिलाओं को सशक्त, स्वावलम्बी व आत्म रक्षा के प्रति जागरूक करने हेतु कार्यशाला आयोजित की गयी।

जिसके क्रम में शाहजहाँपुर पुलिस द्वारा आज दिनांक 30.05.2022 को महिला बीट अधिकारियों की व्यापक रूप से पुलिस लाइन एवं शहीद उद्यान में कार्यशाला आयोजित कर विभिन्न अधिकारियों द्वारा विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया गया जिसके कार्यक्रम निम्नवत है।

- 1- डॉ दीपशिखा ए सिंह क्षेत्राधिकारी अपराध जनपद बरेली द्वारा मिशन शक्ति फेज-4 के अंतर्गत पुलिस द्वारा सूदखोरों के विरुद्ध चलाये जा ऑपरेशन मुक्ति के बारे में विस्तृत जानकारी एवं महिला पुलिस बीट अधिकारियों कार्तव्यों एवं दायित्वों के बारे में जानकारी दी गयी।
- 2- तदोपरांत श्रीमती रश्मि अग्निहोत्री प्रभारी निरीक्षक महिला थाना द्वारा दहेज उत्पीडन एवं घरेली हिंसा से सम्बन्धित अपराधों के विषयों में बनाये गये कानून एवं विधिक जानकारी दी गयी जिससे नारी समाज में निर्भीकता से गरिमामय जीवन जी पाए।
- 3- वर्तमान में साइबर अपराधों के बढ़ते हुई घटनाओं के दृष्टिगत प्रभारी निरीक्षक श्री नीरज सिंह द्वारा साइबर अपराध एवं उनसे बचाव के बारे में अवगत कराते हुए साइबर अपराध होने पर हेल्पलाइन नम्बर 1930

तथा प्रत्येक थानों पर बने हुए साइबर हेल्पडेस्क की जानकारी दी गयी जिससे महिलाओं के प्रति होने वाले साइबर अपराधों पर त्वरित कार्यवाही की जा सके ।

- 4- इसके बाद श्री आशुतोष तिवारी एसीजेएम जिला कानूनी प्राधिकार जनपद शाहजहाँपुर द्वारा न्यायपालिका द्वारा महिलाओं को सशक्त करने के लिए विधिक रूप से दी जा रही सहायताओं के बारे में जानकारी दी गयी । जिसमें आर्थिक अथवा अन्य कारणों से असक्षम महिलाओं को निशुक्ल विधिक सहायता आदि उपलब्ध कराये जाने के बारे में अवगत कराया गया ।
- 5- श्री गौरव मिश्रा जिला प्रोबेशन अधि० व श्रीमती चंचल यादव व श्रीमती अमृता दीक्षित जिला समन्वयक व श्रीमती नमिता यादव प्रभारी वन स्टॉप सेन्टर द्वारा संयुक्त रूप से महिलाओं एवं बालिकाओं/ छात्राओं को स्वावलम्बी, उनमें सुरक्षित परिवेश की अनुभूति, जनजागरूकता, आत्मरक्षा की कला पैदा करने के लिए ,महिला हेल्पलाइन-1090, यूपी-112, 181 तथा कानून की धाराएं जैसे-बाल संरक्षण अधिनियम, लैंगिंग उत्पीडन, छेडछाड, गुड टच – बेड टच आदि एवं उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी गयी ।
- 6- श्री विनोद सक्सेना विनोभा सेवा आश्रम शाहजहाँपुर द्वारा पुलिस एवं गैर सरकारी संगठन (NGO) के मध्य समन्वय तथा संयुक्त रूप से कार्यवाही करने के सम्बन्ध में प्रकाश डालते हुए चाइल्ड हेल्पलाइन नं० 1098 के बारे में जानकारी दी गयी ।
- 7- तदोपरांत श्री उमेश प्रताप सिंह जिलाधिकारी व श्री एस आनन्द पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर द्वारा महिलाओं की सुरक्षा एवं सहायता हेतु शासन एवं उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गयी तथा उन जानकारी को जमीनी स्तर पर प्रत्येक महिला/ बालिका को देने हेतु निर्देश दिये गये । इसके अलावा प्रत्येक महिला बीट अधिकारी को समस्त योजनाओं एवं हेल्पलाइन नम्बरो के पम्पलेट्स, स्टीकर्स एवं महिला सुरक्षा सम्बन्धी कानून की पुस्तक दी गयी । मिशन शक्ति फेज-4 से सम्बन्धित पम्पलेट भी वितरित किये गये इसके साथ साथ समस्त बीट महिला अधिकारियों को निरंतर बीट में जाकर स्थानीय महिलाओं/बालिकाओ से गोपनीय वार्ता कर सूचना

संकलित करने तथा संदिग्धता प्रतीत होने पर कार्यवाही कराने हेतु निर्देश दिये गये एवं आवेदिका/शिकायकर्ता की गोपनीयता का विशेष ध्यान रखने हेतु अवगत कराया गया।

- 8- इसी क्रम शाम 04.00 बजे शाहजहाँपुर पुलिस सभागार मे शाहजहाँपुर पुलिस एंव योदा स्पोर्ट्स एकेडमी पीलीभीत द्वारा संयुक्त रूप से महिला बीट अधिकारियों को आत्मसुरक्षा का प्रशिक्षण दिया गया जिसमे आत्मरक्षा के लिए सेल्फ डिफेंस)के गुर सिखाये जिसमे कराटे, जम्प करना, पंच व किक एवं फाइट हैंड रिलीज टेक्नीक्स के साथ-साथ अन्य बेहतरीन पैतरे व दांव-पेंच सिखाए गये।
- 9- इसके बाद जागरूकता अभियान के अंतर्गत महिला बीट अधिकारियों द्वारा मिशन शक्ति फेज-4 के बैनर के साथ पुलिस लाइन से शहीद पार्क तक जागरूकता रैली निकाली गयी जिसको पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। तदोपरांत शहीद पार्क मे योद्धा सोपर्ट्स एकेडमी के कुशल प्रशिक्षक व शाहजहाँपुर पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से खुले मंच पर पार्क मे उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाये गये एवं इस दौरान पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर द्वारा पार्क मे उपस्थित महिलाओं की सुरक्षा, स्वलम्बन, महिला सशक्तिकरण हेतु विभिन्न योजनाओं व हेल्पलाइन नम्बरो 181,108,1090,1098,यूपी-112,1930, ट्विटर सेवा की जानकारी दी गयी तथा मिशन शक्ति फेज-4 के पम्पलेट्स वितरित किये गये।

इस दौरान पुलिस लाइन मे योद्धा स्पोर्ट्स एकेडमी के छात्र-छात्राओं व प्रशिक्षक को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर पुलिस लाइन मे मिशन शक्ति 4 से सम्बन्धित सेल्फी प्वाइट बनाया गया जिसमे जिलाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर, सहायक पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर, क्षेत्राधिकारी अपराध बरेली एवं महिला बीट अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से सेल्फी ली गयी जिससे महिलाओं/ बालिकाओं की सुरक्षा के लिए शाहजहाँपुर पुलिस की प्रतिबद्धता का संदेश दिया गया।

जनपद शाहजहाँपुर पुलिस द्वारा मिशनशक्ति के अन्तर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं को स्वावलम्बी बनाने, उनमें सुरक्षित परिवेश की अनुभूति कराने हेतु निरन्तर कार्य किया जा रहा है।